



Franchisee/PCD for unrepresented Area
Third Party Manufacturing
Monopoly Business Rights
AYURVEDIC & NUTRACEUTICALS

Tablets Capsules Syrup Sachet
Oil Powder External Preparation

Office: 206, Blue Star Plaza, Sarja Mkt, Opp. M2K, Sector 7, Rohini, Delhi-110085
Works: Plot No.-6, Sector-56, Phase-4, HSIIDC, Kundli-131028 (Haryana)
Ph.: 011 2704 0437, 9810165707
Email: bsnsp@gmail.com

BlueStar MAYLEBENS BLUE STAR

WANTED
Sales Executive
for
Pharmaceutical Formulation Company
Send your CV
to
goishremedies31@gmail.com
09805255088, 09218660003
07837887308
GO-ISH REMEDIES LTD
Near Saify School, Gullarwala, Sai Road, Baddi- 173205 (H.P.)

happy diwali

"Wishing that this Diwali brings prosperity to your business and more opportunities for us to work together!"

J. S. Shinde President
Rajiv Singhal Secretary
K. K. Selvan Treasurer
Sandeep Nangia Organizing Secretary
Sankha Roy Joint Secretary

AIOCD
THE ALL INDIA ORGANISATION OF CHEMISTS & DRUGGISTS
201, Safalya Building, Baburao Paruleker Marg, Dadar West. Ph. 022 61452929

Contact for
PCD Franchise/Pharma Franchise/
Pharma Distributionship/Monopoly
rights for
Pharmaceutical/Nutritional/Derma/
Cosmetology Products

E-mail : bluewater.chd@gmail.com
Call & 98 72 444 554

Swedish Temperature Monitoring Solutions Provider, TSS, Appoints New Regional manager For Middle East & India Operations

Swedish provider of temperature monitoring solutions for the life science industry appoints Christopher Hobeiche to oversee its operations in the Middle East & India as TSS looks to further strengthen their position in key global markets. TSS, who already serves 4 of the world's leading pharmaceutical companies, is thereby increasing the opportunities for safe drug delivery in the region. A task particularly important for cold-chain products, such as the upcoming COVID-19 vaccine distribution. Stockholm, 29 October 2020: Leading cloud temperature management solutions provider, TSS Middle East, today announces the appointment of Christopher Hobeiche as the new regional manager for their Middle East operations. Christopher Hobeiche joined the TSS Middle East & India team earlier this month as part of strategic efforts to strengthen company operations in the region. TSS provides temperature monitoring solutions to cater for all stages in the life science supply chain, from API over clinical trials, commercial operations all the way to the distribution of vaccines against efficiency and safety, transported cooled (2-8°C), deep-frozen (-70°C). The Organization estimates that up to 50% of vaccines are wasted globally part because of lack of and the logistics to support chain. The pharmaceutical industry in the Middle East significantly over the years, chains that serve some of the most critical markets. As TSS seeks to expand its market presence in key regions. He comes to TSS with extensive regional sales experience, having worked for top-of-the-line corporate software solutions companies operating in the Middle East & India. He was a sales executive at multinational ERP and business solutions provider, SAP, for over 4 years, and had a one-year at Insightsoftware before he was tapped by TSS to lead their Middle East operations.

www.medicaldarpan.com

PCD Pharma Franchise
Call - Whats app @ 94160-70290
98884-69557

WORK ETHICALLY UNDER PCD / FRANCHISE SYSTEM OF MARKETING

WE PROVIDE
Visual-aid
LBL, Request Cards, Reminder Cards
Gifts, Rx Pad, Diaries
Monopoly Rights

Aaryan Healthcare Pvt. Ltd.
email: healthcare.aaryan@gmail.com

Call For PCD Franchise: +91 98724-44554, 98789-77174, 73411-11858,

Life vision healthcare

Complete Ortho., Cardio-Diabetic, Gynae, Paed., General, Gastro, Derma Range available

Create Your Own Destiny

A Professionally Managed Pharma Company offers **Monopoly Rights** to market its products on **Franchisee/PCD basis on State/District level all over INDIA**

Assured Quality Efficacy & Stability
WHO GMP/GLP/JAS-ANZ Certified Manufacturing
OVER 1000 molecules
100% Excise Free Manufacturing Till 2020
DCGI Approved Molecules

THIRD PARTY MANUFACTURING PROPOSALS INVITED
Trade Enquiries are welcome For monopoly rights in Unrepresented areas
Only financially sound parties/Pharma Professionals may contact

We offer:
Monopoly Rights, Visual Aids, Samples, Gift Articles

LIFEVISION HEALTHCARE
Plot No 11-12, Dainik Bhaskar Building, Sector 25 D, Chandigarh (160014)
E-mail: lifevisionmarketing3@gmail.com, bluewater.chd@gmail.com
Web: www.lifevisionhealthcare.co.in, www.bluewaterresearch.co.in

Wide Range Of:
Tablets, Capsules, Softgels, Injectables, Neutraceuticals, Syrup, Dry Syrup, Drops, Nasal Drops, Ointments, Hormones, All Derma Range

expand the company's client base by capitalizing on the expertise, innovative solutions, and collaborative product development culture that has enabled TSS to partner successfully with some of the world's leading pharma companies to develop tailored temperature management solutions that advance industry standards and facilitate compliance with industry best practices. Established in 1992 and headquartered in Sweden, TSS first established a presence in the Middle East 10 years ago and has since set up a regional operating hub in Dubai. With their suite of cloud-based temperature management solutions designed specifically for pharmaceutical and life science companies, TSS currently serves 4 of the 10 largest pharmaceutical companies in the world and is well recognized in the industry. Christopher Hobeiche joins TSS at a critical time when the company is reviving up to expand its market presence in key regions. He comes to TSS with extensive regional sales experience, having worked for top-of-the-line corporate software solutions companies operating in the Middle East & India. He was a sales executive at multinational ERP and business solutions provider, SAP, for over 4 years, and had a one-year at Insightsoftware before he was tapped by TSS to lead their Middle East operations.

ब्यूटी लुक्स हर्बल फेस वाश

Beauty looks herbals face wash M/S Puremed Biotech Genrater House Opposite city look Hotel, Sai Road Baddi - 173205 (H.P.) Ph.01795-244446 Email- PUREMED-BIOTECH@gmail.com

एक हर्बल फेस वाश प्रस्तुत किया है, ब्यूटी लुक्स हर्बल फेस वाश, ब्यूटी लुक्स फेस वाश नीम, तुलसी, एलोवीरा और टी ट्री तेल युक्त है। यह चेहरे को साफ कर चेहरे को सुंदर और आकर्षक बनाता है, यह सोप फ्री है तथा 100 प्रतिशत हर्बल है इसका चेहरे पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, ब्यूटी लुक्स फेस वाश बाजार में 100ml के आकर्षक पैक में उपलब्ध है जिसका अधिकतम मूल्य 125 ₹ है व्यापार की इच्छुक पार्टियों कम्पनी के व्यापार प्रमुख श्री प्रशांत मोहन से मो. 9882011313, 9736701313 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

Forgo Pharmaceuticals (P) Ltd.
(An ISO 9001:2015 Certified Company)

- Knee & Ankle Support
- Body Belts & Braces
- Fracture Aids
- Cervical Aids
- Fingers, Wrist & Arm Supports

A wide range of products available for Third Party & PCD marketing

Tablets & Capsules	Neutraceuticals & Protein Powders
Oral Liquids & Dry Syrup	Dietary Supplements
Injectables	Herbal Preparations
Eye Drops, Ear Drops & Nasal Drops	Wide range of Skin Care Cosmetics
Creams, Lotions, Gels & Ointments	Veterinary Drugs
Shampoo & Soaps	Vaccines & Pre Filled Syringes

Aerosols & Form Fill Seat (FFS)

Our Speciality Divisions
More than 1000 products
All new molecules available
Third party manufacturing also done

Corporate Office: Plot No. 92, Ind. Area Phase-4, Panchkula Haryana 134113
Mfg. Unit Forgo Pharmaceuticals (GMP/GLP/WHO Certified Unit) (AN ISO 9001 : 2015 Certified Company)
27, DIC IND AREA, Barotiwala, Teh: Baddi, Dist: Solan (HP)
Email : helpdes@forgo@yahoo.com / forgo@pharmaceutical@yahoo.co.in
Contact Detail : 0172-2569292 / 2568292 / 9814924737 / 7896099905 / 9877640753 / 9569569292

Franchisee/PCD Franchisee/PCD Franchisee/PCD

Third Party Third Party Third Party

Monopoly Business Rights


AYURVEDIC & NUTRACEUTICALS

Tablets Capsules Syrup
Sachet Oil Powder
External Preparation
(Cream, Lotion, Face Wash, Shampoo & Soap)

Blue Star Laboratories **BLUE STAR NUTROSANTIA PVT. LTD.** **MAYLEBENS INDIA PVT. LTD.**

Office: 206, Blue Star Plaza, Sarja Mkt, Opp. M2K, Sector 7, Rohini, Delhi-85
Work: Plot No. 6, Sector-56, Phase-4, HSIDC, Kundli-131028 (Haryana)
Ph.:011-27040437, 9810165707, Email: bsnspil@gmail.com

महाराष्ट्र स्टेट कैमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की निर्विरोध गठित कार्यकारिणी



श्री जगन्नाथ शिंदे
अध्यक्ष



श्री अनिल नावंदर
सचिव



श्री मुकुन्दभाऊ दूबे
उपाध्यक्ष



श्री अरुणदादा बरकसे
उपाध्यक्ष



श्री प्रसादभाऊ दानवे
सहसचिव



श्री मदनभाऊ पाटिल
संगठन सचिव



श्री वैजनाथ जागुटे
खजिनदार



श्री अजित पारिख
जनसम्पर्क अधिकारी

सरोग्लिटजार एमजी ने 'द लिवर मीटिंग 2020' में दो पोस्टर प्रस्तुति देने के लिए

13-16 नवंबर, 2020 को अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लिवर डिजीज (AASLD) द्वारा एक एनुअल मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसका नाम "द लिवर मीटिंग 2020" रखा गया है। इस मीटिंग में एक लेट-ब्रेकर औरल प्रेजेंटेशन और Saroglitzar Mg पर दो पोस्टर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए परमिशन मिल गई है, जिसकी जानकारी खुद Zydus ने एक घोषणा के दौरान दी। बता दें कि, प्राइमरी बिलियरी कोलंगिटिस (Primary Biliary Cholangitis (PBC)) और नॉन-अल्कोहॉलिक स्टीओटो हेपेटाइटिस (Non-Alcoholic Steato Hepatitis (NASH)) के पेशेंट्स में सेप्टी, टोलेरबिलिटी और एपफोसेसी को क्लीनिकल ट्रायल्स के वैरियस स्टेज में एवल्यूएट करने के लिए Saroglitzar Mg भी शामिल है। डेवलपमेंट पर बात करते हुए कैंडिडा हेल्थकेयर के अध्यक्ष पंकज आर पटेल ने कहा, "हम अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लिवर डिजीज (AASLD) द्वारा आयोजित "द लिवर मीटिंग डिजिटल एक्सपीरियंस" (Annual Meeting) में Saroglitzar Mg पर नए डेटा प्रेजेंट करने के लिए एकदम तैयार हैं। वहीं, Zydus भी PBC और NASH जैसे लिवर डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए नॉवेल थेरेपीज को डेवेलोप करने के लिए कमिटेड है।"

- डॉ. हनुमान प्रसाद उत्तम, मो. 9828150015.

Quest PHARMACEUTICALS

1998-2018 20 YEARS

Quest for Standard ... Quest for Quality ... Quest for growth ... Quest to excel ...

Tablets | Capsules | Softgels | Liquid Orals | Injections
Ointments | Dry Syrups | Drops | Protein Powder

Where Maintaining Transparency, Trust & Ensuring Customer Satisfaction is a Norm

DOT-250 DT / Cap. Amoxicillin 250mg + Clavulanic Acid 62.5mg Bacillus 60 million spores Cap	DOT-500 Amoxicillin 500mg + Lactic Acid Bacillus 60 million spores Cap	CHECKSPAS Oxifenbutol 2.5 mg + Chlorzoxiprone 8mg + Diclofenac 10 mg Tablet	CORTIPRIV-6 Deflazacort 6 mg Tab. / Syrup
FEBUQUEST-40 Febuxostat 40mg Tablets	DOTCLAV Amox 500mg + Clavulanic Acid 125mg Tab Amox 200 mg + Clavulanic Acid 50mg Syrup	DIVINASE FORTE Trypsin-Chymotrypsin 1 Lac A.U.	FALQUEST Furosemide 40mg + Colloidal Bismut 80mg Tab. (4-A Water 150mg/200mg)
HICLOX-LB Amoxicillin 250 mg + Clavulanic 62.5 mg + Lactic Acid Bacillus 60 million spores Cap	DIVINASE-RB Trypsin 40 mg + Bromelain 90 mg + Bromelain Trypsinase 100 mg	QUPRAZ Pantoprazole 40 mg	MOFLO-OZ Ofloxacin 300mg + Ofloxacin 300mg Tab. Ofloxacin 300mg + Ofloxacin 150mg/200mg
ZOLSTAR-DSR / LSR Zolmitriptan 2.5 mg + Sumatriptan 50 mg 5.8 mg Zolmitriptan 2.5 mg + Sumatriptan 75 mg 5.8 mg	QUPOD-CV Colposporin 200mg + Clavulanic acid 125mg Tablets	SPOROCEF-CV Cefixime 200 mg + Clavulanic acid 125mg Tablets	SPOROCEF-O Cefixime 200 mg + Ofloxacin 200 mg
SPOROCEF-100 / 200 DT Cefixime 100 / 200 mg Dispersible Tab.	MEROCRAFT-1g Meropenem 1gm	LYCOSHINE Lycopersin 500mg, Vitamin E 100 IU, Vitamin C 100 mg, Zinc 15 mg, Borax 0.5 mg, D-Calcium Phosphate 15 mg	QUPOD-100 / 200 DT Colposporin 100 / 200 mg Disp Tab.
SPEEDON-SP Acetaminophen 500mg + Paracetamol 325mg Sertralopristin 15 mg	SPEEDON - TH4 Acetaminophen 500mg + Theophylline 40mg	QUPRAZ-DSR / LSR Pantoprazole 40 mg + Sertralopristin 30 mg 5.8 mg Pantoprazole 40 mg + Sertralopristin 75 mg 5.8 mg	SPEEDON-P Acetaminophen 500 mg + Paracetamol 325mg

Parties with sound financial background and established network are welcome to contact for Monopoly Rights at:

SCF-15, A-Block Market, Ranjit Avenue, Amritsar (Pb.)
INDIA (M) : 98885-25668, 98146-45668 (Mr. Ranjit)
Email: quest_pharma@yahoo.co.in, visit at: www.questpharma.co.in

SRM Medicity Hospital बनाता है उल्टे उस्तरे से हजामत



अखिलेश चन्द्र गुप्ता

अगर आप ज्यादा रूपये खर्च करके ज्यादा समय में अपना इलाज करना चाहते हैं और अपनी बची-खुची जेब भी कटवाना चाहते हैं, तो चले जाइये SRM Medicity Hospital Haridwar Road, Opp. Gulmohar Greens, near Pitambar Farms, Sherpur Roorkee (U.K.). रूडकी से कुछ कैमिस्ट होलसेलर्स और मरीजों से जानकारी मिली है कि अखिलेश चन्द्र गुप्ता मो. 9837443335 कुछ वर्ष पहले रूडकी की अनाज मंडी में ड्यूक फार्मा के नाम से एक रिटेल कैमिस्ट शाप चलाता था और उस समय भी यह अपने व्यवसाय में व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं था, अति महत्वाकांक्षा के चलते अब उसने कुछ समय पहले SRM Medicity Hospital के नाम से एक अस्पताल खोला है जहाँ पर सारी अनियमितताओं का बोलबाला है। रूडकी से कुछ कैमिस्ट होलसेलर्स ने जानकारी दी है कि यह व्यक्ति रूपये 500 का भी माल मगाकर पैमेंट नहीं देना चाहता, मजबूरी दिखाता है और होलसेलर को लगातार चक्कर कटवाता है और बहानेबाजी करता है। इस अस्पताल में डॉक्टर्स का आलम यह है कि कोई भी डॉक्टर 1 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाता क्योंकि डॉक्टर्स का पैमेंट भी यह व्यक्ति डकारने की फिराक में लगा रहता है। स्टाफ भी परेशान है क्योंकि उसकी पगार उसे टाइम पर नहीं मिलती इसलिए यह व्यक्ति आये दिन स्टाफ भी बदलता रहता है। मैडीकल दर्पण मीडिया हाऊस प्रतिनिधी के सर्वे के अनुसार रूडकी शहर के कुछ गणमान्य महानुभावों ने भी इस व्यक्ति के अस्पताल खोलने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए जानकारी दी है कि यह नियत खराब व्यक्ति है इसके यहाँ कार्य करने वाले डॉक्टर्स, स्टाफ और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों का भगवान ही मालिक है।

Experience

You Can Trust

THIRD PARTY MANUFACTURING FACILITIES AVAILABLE WITH SPARE CAPACITY

EXPORT ENQUIRIES ARE SOLICITED MORE THAN 100 COPP'S AVAILABLE

WHO-GMP, GLP Certified Quality Assured Products Available in :

- Softgel Capsules : Drug & Food Compositions
- Hardgel Capsules : Non-Betalactam
- Oral Liquids
- External Applications : Ointments, Creams, Lotions, Dusting Powders.
- Soaps : Medicated Soaps
- Tablets : Non-Betalactam
- Dry Syrups : Non-Betalactam
- Sachets : Drug Formulations
- Protein Powder : Drug Formulations

FOR MARKETING ENQUIRY, PLEASE CONTACT:

ANVIK BIOTECH
ANVIK BIOTECH (PVT) LTD. (INDIA)
Plot No. 6, Sector 56, Phase 4, HSIDC, Kundli, Haryana
Phone No. 015224816, 021524818 & 0812024816
E-mail : anvikbiotech@yahoo.co.in, anvikbiotech@anvikbiotech.com
Website : www.anvikbiotech.net

ADSILA ORGANICS Pvt. Ltd.
Laxmapur Road, Vid. Bahugihar-131022, Dist. Sonapat (Haryana)
E-mail : adsila111@gmail.com, sales.adsila@gmail.com, mktadsila@gmail.com, sales@adsilorganics.com
www.adsilorganics.com
Ph. : +91 9518006694, +91 9034044816, +9254324816.

अनुपमा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से डॉ. पराग काम्बोज करेंगे निशुल्क ऑपरेशन

ऑपरेशन के लिए लकी डा मुख्य अतिथि मुजफ्फरनगर कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुभाष चौहान द्वारा निकाला गया। मुजफ्फरनगर- जनपद मुजफ्फरनगर में अनुपमा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से वरिष्ठ लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर पराग काम्बोज के प्रेमपुरी स्थित अस्पताल में कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 3 मरीजों का लाटरी के माध्यम से लकी डा ऑपरेशन के लिए निकाला गया। ऑपरेशन के लिए लकी डा मुख्य अतिथि मुजफ्फरनगर कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुभाष चौहान द्वारा निकाला गया, आज का लकी डा जानीस्ता नामक मरीज का नाम निकलने पर उसका पूर्णतया ऑपरेशन निशुल्क डॉ पराग काम्बोज के द्वारा करना सुनिश्चित हुआ. वरिष्ठ लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉ पराग काम्बोज के अस्पताल में प्रत्येक रविवार को जरूरतमंद मरीजों का लाटरी के माध्यम से लकी डा निकालकर एक मरीज का ऑपरेशन किया जाएगा. इस अवसर पर (महामंत्री) संजय गुप्ता (कोषाध्यक्ष) सतीश तायल (सदस्य व्यापार कल्याण बोर्ड) सचिन त्यागी (राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल) अरुण प्रताप सिंह, संदीप भारद्वाज, कुलदीप शर्मा, अमित, जॉनी, आशीष, सोनू, दीपा, नीना, दीपक, कुलदीप, हनुमन्चंद, सुमित आदि उपस्थित रहे. - सुभाष गौड़, मो. 9568759677.

भारत में पहली बार

देश की अग्रणी दवा निर्माता कम्पनी **STADMED Ph. No.: 033-2474-0650, 0651,0653** ने विश्व क्षयरोग दिवस के अवसर पर भारत में पहली बार **PULMOCOD CG** (VitaminA, D3, B-Complex, Calcium Hypophosphate, Creosote & Guaiacol) के साथ **PULMOCOD PLAN** (Vitamin A, D3, B-Complex, Calcium Hypophosphate) साथ रखें, ● द्विपद्धति चिकित्सा जो कि क्षयरोग को ठीक करने में मदद करता है को बाजार में प्रस्तुत किया है. इसकी विशेषता इसका Sugar Free होना है.

www.medicaldarpan.in

Nutica herbocare

Nature's award to mankind...
Ayurveda is a way of life
It's safe & harmless aspect in treatment

humble contribution towards alleviating human miseries & service to mankind by presenting pure ayurvedic range from GMP certified manufacturing unit for complete herbal range for

HAIR GROWTH	BLOOD PURIFIER	LIVER DISEASES
DENTAL RANGE	ORTHO ARTHRITIS	COUGH SYRUP
UTERINE TONIC	MEMORY BOOSTER	ALKALISER
STONE	OBESITY	
DIGESTIVE ENZYME	ANTACID	

DOSAGE FORM : TABLETS, CAPSULES, POWDER, SYRUPS, OILS

We provide

- Product Card
- Visual Aid
- Physician's Sample
- Gift Articals
- Monopoly right Area wise

Trade enquiries welcome for monopoly basis franchise / PCD base distribution contact

Nutica herbocare
Ground Floor, 286 Industrial Area Phase - 1 Panchkula (Haryana) Pincode - 134109
Tel. : 0172-502596, 5025097, 9216295095
Email : infonuticacare@gmail.com
Website : www.nuticaherbocare.com

VET Today
Dedicated Towards
Animal Healthcare.....

AN ISO : 9001: 2015 Certified Company

Minimum Investment
with High Profit
Interested in a
BUSINESS
OPPORTUNITY
Give a Missed Call or
Whatsapp on
+91-8006239983

ALL OVER INDIA
www.vettoday.in

Most Attractive Packing
Most Economical Price
Sister Concern Manufacturing Unit

Monopoly, Visual Aid, Samples, Gift Articles, Promotional Material, Product Training, Field Assistance.

Regd. Off.: 2/500, Begum Bagh, Aligarh - 202001 (U.P.)
e-mail : vettoday@yahoo.com

गांधी-नेहरू समझौता (1947)



डॉ. देव गुलाटी

(1) गांधी ने, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और 1947 में देश विभाजन की सहमति देने के बाद भी, हिन्दुओं को यह आभास नहीं होने दिया कि यह हिन्दू धर्म की उत्पत्ति वाला देश है अतः खण्डित देश का नाम हिन्दुस्तान रखा जाना चाहिए, (2) गांधी, हिन्दू विरोधी और मुस्लिम प्रेमी थे, (3) गांधी की इच्छा थी कि खण्डित भारत भी हिन्दू राष्ट्र नहीं बने, (4) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने नेहरू को उपयुक्त माना, (5) नेहरू भी हिन्दू विरोधी और मुस्लिम प्रेमी थे, उनके दादा मुस्लिम थे, (6) कांग्रेस के प्रचण्ड बहुमत की इच्छा थी कि सरदार पटेल को प्रधान मंत्री बनाया जाए लेकिन गांधी ने अपना लक्ष्य पाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करके नेहरू को प्रधानमंत्री बनवा दिया, (7) आर्यों और स्वयं सेवकों ने भी विरोध नहीं किया जबकि पटेल को बनवाना बहुत अच्छा रहता, (8) हिन्दू के खराब दिन (712 से 1947 तक) चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं, (9) श्रद्धानन्द ने गांधी को महात्मा और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर महान गलती की, (10) नेहरू ने प्रधान मंत्री बनकर गांधी की इच्छा पूरी कर दी और भोला-मुदा-अधूरदशी हिन्दू उठा गया, उसे कुर्बानी कर फल नहीं मिला, (11) खण्डित भारत से केवल 75 लाख मुस्लिम पाकिस्तान गए जबकि 3 करोड़ मुस्लिम यहीं रह गए, (12) विदेशी ईसाई मिशनरी भी अपने 2 देश जाने की तैयारी करने लगे थे, (13) नेहरू ने घोषणा कर दी कि खण्डित भारत सब का है केवल हिन्दुओं का नहीं है, यह धर्म निष्पक्ष राष्ट्र बनेगा, इस खिचड़ी राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग प्रेम भाव से मिल जुलकर रहेंगे, (14) विदेशी धर्म के प्रचारकों को भी नए संविधान में धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार दिया जाएगा, (15) हिन्दुओं को स्कूल-कॉलेजों में धर्म शिक्षा देने का अधिकार नहीं होगा जबकि अल्पसंख्यकों को यह अधिकार मिलेगा, (16) जिन्ना ने हिन्दुओं से कहा था कि वे हिन्दू महासभा को अपनाएं, (17) यदि हिन्दू मान जाते तो हिन्दुस्तान में हिन्दू 98 प्रतिशत हो जाते, सारे मुस्लिम पाकिस्तान भेज दिए जाते, (18) ईसाई-पारसी-यहूदी अल्पसंख्यक के रूप में रहते, धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं दिया जाता, (19) अब हिन्दू 80 प्रतिशत रह गए हैं, मुस्लिम 35 वर्षों के बाद पुनः शासक बनना चाहते हैं, (20) हिन्दू अभी भी गांधी वादी है, उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं है.

- डॉ. देव गुलाटी, मो: 8958778443.

The World Awaits The COVID Vaccine- Hope The Wait Ends Soon!

With the spread of Coronavirus, people across the world are waiting desperately to end this horrific terror, and only the vaccination is a solution to stop this dreadful Pandemic. COVID-19 is an awful virus that took the whole world on a toll with thousands of deaths and millions getting infected from it. Even after so many Lockdowns and Sanitization efforts, the counts are only shooting up in countries like India. Even the latest Pharma updates claim the scientists and researchers all over the globe are in full fling to come up with an effective Corona Vaccine. People are still waiting to get delighted with the Pharma news of COVID vaccine launched successfully all over. **How can Corona Vaccine protect against COVID-19?** As per the health experts, COVID-19 Virus enters and triggers your body; the immunity system creates antibodies of high value. With the help of a robust vaccine, your body can generate more elevated antibodies to combat Coronavirus that results in weakening of these viruses. Hence, doctors state that you can prevail a better immunity against this illness, and the terror of COVID-19 would finally come to an end. Even if it hits someone, the effect would be much milder as that of the common flu. Latest Pharma updates suggest that the Corona Vaccine can slow down the pandemic severity in the world and save a lot of lives against it. **What is the process to develop COVID Vaccine?** The biggest quest in front of the world is when this mysterious disease would come to an end? And the only answer is the development of an effective vaccine. All major countries, including India, are trying day and night to come up with the best vaccine and are at several levels of vaccination development as per the recent reports from WHO (World Health Organization). Few of them have already begun the clinical trials and claim to launch it soon. But a few things take time to like it takes a while for the vaccine to show its results on any person's immunity system, and it is mandatory to check responses to determine if there are any side-effects. Pharma news keeps updating on the latest developments related to the vaccine so that people stay aware of it.

Quality Products For Better Healthcare

Your Inquiries are welcome for
FRANCHISEE / PCD
For Marketing & Distribution with Monopoly Rights

- Competitive Rates
- Advance Deposits
- Full Promotional Material Support

With A Wide Range of
Tablets / Capsules
Injectables
Liquid / Dry Syrup
Ointment & Lotion

CANDOUR HEALTHCARE PVT. LTD.
A-38, Damodaripuri, Opp. Emergency Gate, Saharanpur-247001 (U.P.)
Mob.: 9412556524, 8630435340
e-mail : candourhealthcare@gmail.com

And the frustrating part is that even if any country announces the first-ever Corona vaccine, it might take a minimum of 12 to 18 months to make it ready for public use. And mind it, it is just a fraction of the actual time any vaccine takes to hit the market. Hence, everyone needs to keep patience and follow effective precautions until the feasibility of vaccination in the market. **Stages of vaccine development** Before the introduction of any vaccination, it goes through various stages of development and testing that ensure its efficacy against harmful bacteria. Few essential steps that lead to the outcome of vaccine are as follows: **Exploratory Stage-** The primary phase starts with lab research where scientists and doctors work for years to think and innovate a compound or drug that works as a preventive shield against any disease. This time lasts from 2 to 4 years commonly. **Pre-Clinical Stage-** In the next phase, scientists undergo multiple lab testing on animals like the monkeys or the mice to determine if the vaccine is working correctly or not. Average time of this stage lasts from 1 to 2 years. And the experiments might fail and retried multiple times. However, if it gets succeeded at one go and FDA validates it, the next level is the clinical testing. **Clinical Development-** Testing in humans, moves through three phases. In Phase I, it lasts for around 1 or 2 years and involves less than 100 people. Next is Phase II, where vaccine testing involves hundreds of people at a stretch. And the last one is Phase III which affects thousands of people. In all, the entire time-lapse of a clinical trial might stretch to 15 years or even more at times. And only 1/3rd of vaccine trials even reach the final stage of development. **Regulatory scrutiny and Approval-** Scientists who get FDA and CDC can move to clinical trials and then their part is over. **Manufacturing-** Next comes the manufacturers who start with production. You receive an update through Pharma News as soon as the vaccine is out for production. Now FDA inspects the production factory and approves the drug labelling. **Quality Check-** Next comes the quality check where government agencies and scientists keep a close eye on the drug-making procedure and also examines the people on whom trial goes off. Once all is good, the vaccine is out for sale. All of this is important to know the precision of this extensive process where a vaccination might take half a decade to succeed. But looking at the plight of this Pandemic where mark already crossed over 14 million worldwide and the recorded deaths of 6 lakh people, WHO and the world are racing hard to get the Corona Vaccine to fight this disease. Several countries, including the US, China, Russia, UK and India, are trying hard to get the vaccine for Coronavirus at the soonest. Almost 130 types of vaccines are under various testing stages to fight COVID-19, and no one knows when the world would get the news of vaccine launch. **Russia-** As per the latest Updates, Moscow State Medical University claimed to complete the clinical trials related to this vaccine. They might soon come up with big news that the world is waiting for. **China-** China Company Sinovac was already reaching the third stage of the Corona Vaccine and did a clinical trial on 15,000 registered volunteers from Abu Dhabi. They claim of noticing potent antibodies of those people, but there is no official announcement on the same. **UK-** the UK is in full swing to launch the COVID-19 vaccine with support of Oxford University and Imperial College, and already 150 people are on a clinical trial. By November, the count would reach till 6000, and we hope to get some big news by the end of this year. **India-** Latest Updates revealed two medicines Covaxin and ZyCov-D developed by Bharat Biotech and are under its initial phases. Many volunteers are approaching for the trials, and almost 100 million doses are ready after the successful clinical trials. It is to be out by March of next year. There are also Australia and the US in the league of Vaccine development. **Wrap up** We bring you the latest pharma news from India and all over the world on current changes and developments in the healthcare industry. Coronavirus is a saddening pandemic that is affecting the lives of thousands, and even the Pharma Industry is fighting its effects. Corona Vaccine can be a new dawn for the entire world, which is dealing with its grievances as this disease collapsed the economic and infrastructural growth of the whole world badly. Experts claim that the start of 2021 might bring up the first-ever Corona Vaccine and brings this issue to an end. Let's hope to find the solution soon that India and the world go back to 'OLD NORMAL'.

WISH YOU VERY Happy Diwali

MAY THE DIWALI LIGHT ILLUMINE YOUR MINDS, ENLIGHTEN YOUR HEARTS, AND STRENGTHEN THE HUMAN BONDS IN YOUR HOMES AND COMMUNITIES

जगन्नाथ शिंदे
अध्यक्ष

मुकुंद दुबे उपध्यक्ष
अरुण बरकसे उपध्यक्ष
अनिल नावंदर सचिव
वैजनाथ जागुटे खजिनदार

मदन पाटील संघटन सचिव
प्रसाद दानवे सहसचिव
अजित पासरख जनसंपर्क अधिकारी

सर्व केमिस्ट बांधव व पदाधिकारी महाराष्ट्र राज्य

द महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन
301, साफ्लय बिल्डींग, बाबुराव परळकर मार्ग, दादर (प.), मुंबई - 28
फोन : 022 61452900, फॅक्स : 022 61452901, Email - info@mscda.in

Touching Lives... Ensuring Healthy Smiles....

Medons India
An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Offers a wide range of quality based pharma Products for various segments like Analgesics, Pediatric Antibiotics, Anti Malarials, Gynec and so on...

More than 150 Products Latest ALU-ALU Packings

Tablets	Capsules	Liquids	Dry Syrup	Injectables
Drops	Lotions	Gels	Ointments	Shampoos
Protein Powders	Dietary Supplements	Neutraceuticals		

We provide all kinds of **PROMOTIONAL INPUT** i.e.

VISUAL AID FOLDER	LEAVE BEHIND CARD	VISITING CARDS
DETAILING STORY	SAMPLE CATCH COVER	REMINDER CARDS
PRODUCT SCIENTIFIC DETAIL	ORDER BOOK	GIFTS ARTICLES

Trade enquiries welcome from pharma selling experience may contact for monopoly basis Franchise/Bussiness associates for unrepresented areas

Plot No. 286 Basement, Industrial Area, Phase -1 Panchkula (Haryana) Pincode - 134113
Ph. : 0172-5025098, 92162-95095
E-mail : infomedonsindia@gmail.com
Website: www.medonsindia.com

The New Dimension in HEALTHCARE

Pharmazain
Life Sciences

More than 200 products Latest ALU-ALU Packing
Products manufactured at WHO/GMP Certified Units

Superspeciality formulations & New Drug Molecules

A Golden opportunity for life time with monopoly rights in unrepresented areas

Trade Enquires are welcome PCD/Monopoly basis.

We Offer :
Area wise rights, Visual Aids, Promotional Materials, Samples, Product Reminders & Gift Articles

For Franchises/Distributorship for unrepresented areas contact :
PHARMAZAIN LIFE SCIENCES
M.F.ANSARI

Redg. off. : 45/11, Shastri Nagar, Meerut-250004 (U.P.)
Ph. : 0212-2601077 Cell: 09359949588, 09412303030
E-mail : pharmazain@gmail.com

सभी देशवासियों को
घनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भैयादूज
की
हार्दिक शुभकामनायें



G.S. Sharma
Shailesh Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
Kasganj, Mob:- 9212734347

सभी देशवासियों को
घनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भैयादूज
की हार्दिक शुभकामनायें



सुधीर शर्मा
Ruto India Pharmaceuticals
Kashganj, Mob:- 9837111251

सभी देशवासियों को
घनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भैयादूज
की हार्दिक शुभकामनायें



Shallendra Singh Chauhan
Raxo Pharmaceuticals, Kasganj (U.P.)

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली
की
हार्दिक शुभकामनायें



देवेन्द्र कुशवाह
ओपेड मैडीकल स्टोर, कासगंज (उ.प्र.), Mob:- 8171959623

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली
की
हार्दिक शुभकामनायें



लक्ष्मण दास
पवन मैडीकल स्टोर, कृष्णा नगर, मथुरा (उ.प्र.), मो 9897743100
एल. डी. पावल, मथुरा

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें



भवानी शर्मा
भवानी आयुर्वेद फार्मसी
कासगंज (उ.प्र.)

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें



दिनेश प्रताप सिंह
प्रशान्त मैडीकोज, इटावा (उ.प्र.), मो 9410438363

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली
की
हार्दिक शुभकामनायें



विजय बरसैया
महेश मैडीकल एजेन्सी, झांसी (उ.प्र.), मो 9838031596

सभी देशवासियों को
घनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भैयादूज
की हार्दिक शुभकामनायें



अखिलेश कनकने
भावना मैडीकल स्टोर, झांसी, Mob:- 9621246328

सभी देशवासियों को
घनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भैयादूज
की हार्दिक शुभकामनायें



Manoj Arora
Pawan Medial Agencies, Jhansi (U.P.), Mob:- 9415113510

सभी देशवासियों को
घनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भैयादूज
की
हार्दिक शुभकामनायें



राजीव गर्ग
ग्लोबल एजेन्सी, झांसी (उ.प्र.), मो 9415030395

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली
की
हार्दिक शुभकामनायें



प्रशान्त कुमार गुप्ता
क्वालिटी मैडीकल स्टोर
खाण्डेराव गेट, झांसी (उ.प्र.), मो 8858335300

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें



Rajneesh Chandra
Mitra Medico & Surgical Agencies
Jhansi (U.P.), Mob:- 9839111527

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें



शहिद अहमद शेख
चेयटेम
मो 9969755721



पंकज दिगंबर सिन्धी
अध्यक्ष
मो 9819984989



प्रवीण शर्मा
सचिव
मो 8369078294

मीरारोड रिटेल कैमिस्ट एसोसियेशन, मुम्बई

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली
की
हार्दिक शुभकामनायें



THURS PHARMACEUTICALS
E-105 Shastri Nagar, Meerut (U.P.)
106 Akroti Star, MIDC, Central Road
Andheri (E) Mumbai
Mob:- 9412701193, 9412202539

महामारी बनता गले का कैंसर

जमाने की रफ्तार के साथ भागते हुए दुनिया भर में लाखों-करोड़ों की संख्या में लोग कामकाजी हैं। जो दिन भर नई-नई उलझनों में फँसते रहते हैं जैसे- ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन, रिश्तों की टेंशन, जिम्मेदारियों की टेंशन या फिर कुछ और ऐसे में मनुष्य अपनी टेंशन को दूर करने या फिर उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ गलत तरीकों को अपनाता है या फिर यूँ कह लीजिये कि जाने अनजाने में कुछ जानलेवा चीजों को अपनी आदत बना लेता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई टेंशन में होता है तो फिर सबसे पहले वो बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू जैसी कुछ खतरनाक चीजों का सेवन करता है पर क्या ये सही है? क्या हम जानते हैं कि जाने-अनजाने में हम कितनी बड़ी बीमारी को न्यौता दे रहे हैं? दरअसल आज हमारे देश की युवा पीढ़ी ने तम्बाकू के विषय में अनेक गलत धारणाएँ पाल रखी हैं। वे समझते हैं कि इसके इस्तेमाल से वे अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश के पुरुषों में गले व मुँह के कैंसर के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। लेकिन अब महिलाएँ भी पीछे नहीं हैं। हॉ ग्रामीण महिलाओं की तुलना में शहरी महिलाओं में यह ज्यादा पाया जा रहा है। आज बाजार में तम्बाकू के तरह-तरह के उत्पाद मौजूद हैं। जैसे पान मसाला, गुटका, सिगार, सिगारेट, सिगार से लेकर बीड़ी तक। आज स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में पान मसाले के आदि होते जा रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि पंद्रह-सोलह वर्ष तक के बच्चे भी बड़ी संख्या में इसके आदी होते जा रहे हैं। आजकल युवाओं की शान में शामिल है कि वो सिगरेट और तम्बाकू का सेवन करें, क्योंकि यदि वो मना कर देंगे तो उनकी बेइज्जती हो जायेगी। पर ठहरिये! कहीं आपका एक कदम आपसे आपकी कीमती जान ना छीन ले जाये। देश भर में देखा जा रहा है कि गले के कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी बहुत ज्यादा पनप रही है साथ ही कैंसर के बारे में ये भी सुना और माना जाता है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। पर क्या आप जानते हैं कि गले का कैंसर होता क्यों है? इसके लक्षण क्या हैं साथ ही इसका उचित इलाज क्या है? नोएडा स्थित फॉर्टिस हॉस्पिटल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ॰ अमित अग्रवाल कहते हैं कि गले का कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। जिसमें मरीज को बोलने, खाना खाने, साँस लेने जैसी, बहुत सी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में गले के कैंसर या गले में गाँठ का होना, अचानक ही वजन का घटना ऐसी ही कुछ खास परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कुछ लक्षणों को देखने के बाद टेस्ट करा लेना चाहिए। गर्दन और गले का टेस्ट कराने से भी इसका पता चल सकता है। कैंसर की पुष्टि के लिये कपास सीटी स्कैन, एम आर आई भी कराई जाती है। गले के कैंसर को जानने के लिये एक खास टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट के अंतर्गत मरीज के ट्यूमर की सही स्थिति को जान लिया जाता है, टेस्ट को ऑपेरिंग कम्प्रे में किया जाता है। इस कैंसर में तीन थैरेपी या फिर यूँ कह लीजिये कि तीन तकनीकों से इलाज किया जा सकता है जैसे कि सर्जरी, विकिरण चिकित्सा, और कीमो चिकित्सा। **सर्जरी चिकित्सा**, के अंतर्गत अगर ट्यूमर छोटे और स्थानीय हैं तो उसे कम साइड इफेक्ट के साथ निकाला जा सकता है। पर अगर, ट्यूमर उन्नत है और आस-पास के क्षेत्रों में फैला हुआ है तो सर्जरी और अधिक व्यापक होनी चाहिए। उन्नत ट्यूमर सर्जरी की स्थिति में बोलने, खाना चबाने, निगलने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। फिर इसके पश्चात् एक सर्जरी के अंतर्गत बोलने, चबाने, निगलने और साँस लेने की स्थिति को सुधारा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर व्यापक सर्जरी के पश्चात् खाना खाने हेतु एक ट्यूब का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम

से आहार विशेषज्ञ द्वारा बताये गये खाने को खाया जा सके। **विकिरण चिकित्सा**- इस चिकित्सा को प्राथमिक उपचार के रूप में काम में लाया जाता है, इसका चयन छोटे व अविक्सित ट्यूमर के लिए किया जाता है। उन्नत ट्यूमर में इसे सर्जरी के पश्चात् किया जाता है। **कीमोथैरेपी**- इस चिकित्सा का प्रयोग भी कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिये किया जाता है। इस थैरेपी को कैंसर के लिये प्रभावी दवाओं के साथ इलाज के संयोजन के लिये काम में लाया जा रहा है। इस थैरेपी की सहायता से प्रभावी दवाओं के साथ-साथ पीड़ित क्षेत्र पर कैंसर के उपचार हेतु ट्यूमर को नष्ट करने और फैलने से बचाया जाता है, उन्नत ट्यूमर में इसे विकिरण चिकित्सा के संयोजन में दिया जाता है। गले के कैंसर में रोगी 90 प्रतिशत ठीक हो सकता है पर उसके लिये शुरूआती स्थिति में बीमारी का पता चल जाना जरूरी है। अगर कैंसर गले में आस-पास के क्षेत्रों में फैल गया है तो इसके ठीक होने की उम्मीद 60 प्रतिशत होती है यदि कैंसर सिर, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया है तो इसे ठीक करना संभव नहीं, उपचार के बाद रोगियों को आम तौर पर चिकित्सा की दिक्कत महसूस हो सकती है। यदि खाना खाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है उसके लिये एक विशेष ट्यूब की सहायता ली जाती है। डॉ॰ अमित अग्रवाल का कहना है कि कैंसर का इलाज संभव है बशर्ते उसका पता शुरूआती स्थिति में लग जाये। मुँह व गले का कैंसर हमारे खान-पान व आदतों से जुड़ी बीमारी है और इसका परिणाम भी घातक ही होता है। भले ही अब अंतिम अवस्था तक इसके इलाज की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इनसे बचाव ही बेहतर और सबसे सरल इलाज है।

- डॉ॰ अमित अग्रवाल, मो॰ 09971611311.

हिम्मत मत हारो

मन के हारे-हार है! मन के जीते जीत ! आप विश्वास कीजिए, आप से बेहतर कोई नहीं, अपने आप को जानिए, आज के दिन का पूरा उपयोग करें। एक दिन एक किसान का गधा कुएँ में गिर गया। वह गधा कई घंटों से ज़ोर-ज़ोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अंततः उसने निर्णय लिया कि गधा काफी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था। और इसलिए उसे कुएँ में ही दफना देना चाहिए, किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक-एक फावड़ा पकड़ा और कुएँ में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही गधे की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह ज़ोर-ज़ोर से चीखकर रोने लगा। और अचानक फिर वह शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएँ में मिट्टी डालते रहे, तभी किसान ने कुएँ में झाँका तो वह आश्चर्य में पड़ गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह गधा एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल-हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा रहा था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। अन्त में वह गधा कुएँ के किनारे पर पहुँच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। ध्यान रखो कि तुम्हारे जीवन में भी तुम पर बहुत तरह कि मिट्टी फेंकी जायेगी, बहुत तरह की गंदगी तुम पर गिरेगी। जैसे कि, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आलोचना करेगा। कोई तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या के कारण तुम्हें बेकार में ही भला बुरा कहेगा। कोई तुमसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो तुम्हारे आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसी स्थिति में तुम्हें हतोत्साहित होकर कुएँ में ही पड़े नहीं रहना है बल्कि साहस के साथ हिल-हिल कर हर तरह कि गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर, उसे सीढ़ी बनाकर, बिना अपने आदर्शों का त्याग किये अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए याद रखना चाहिए (1) नकारात्मक विचारों को उनके विपरीत सकारात्मक विचारों से विस्थापित करते रहो। (2) आलोचनाओं से विचलित न हो बल्कि उन्हें उपयोग में लाकर अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करो। - **परनेत्र अली खान**, मो॰ 9412386917.



सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

संजय गुप्ता
Prakash Medical Store, Mandhai Chowk, Badaun, Mob.: 9219169001

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

Samarjeet S. Gaikwad
Shri Shri Dongarai Medical Shoppi, Sangli (MH), Mob.: 9579990059

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

Nanasahab B. Chavan **Rushikesh B. Chavan**
Gurumauli Medical Stores, Shivkripa Dairy & Daily Needs
Chikhalthan, Aurangabad (MS), Mob.: 9970763694

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

Suresh D. Jaiswal **Ramadevi Jaiswal**
SARANG MEDICAL STORE
Sawargaon, Nagpur (MH), Mob.: 9423601693

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

Dr. Satish Chandra Yadav
Kalhor, Mainpuri (UP), Mob.: 9411614268

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

राजेश चौधरी
रीना मेडिकल स्टोर, शिवाजी रोड, मेरठ (उप्र), मो० 9997634086

Happy
Deepawali

From:
Nansom Health Care Pvt. Ltd.
Makers of: ELC, NANOZOX, PARANAN, CBION,
BUDENAN, DUONAN

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

संजय गौयल
Antra Medicose, 247 Purva Deen Dayal
Sher Singh Rana chowk, Roorkee (U.K.), Mob.: 9045357337

www.medicaldarpan.com

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

VETtoday
Harish Kumar (Director)
Vettoday
(A ISO Certified Company)
2/500, Begum Bag, Near P.K. Typing, Aligarh (U.P.)
Mob.: 8006239983

कम्प्यूटर-लैपटॉप पर काम करने वाले 30 प्रतिशत लोगों को इस सिंड्रोम का खतरा, जानें बचाव

लैपटॉप और कम्प्यूटर ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, इससे खतरे भी उतने बढ़े हैं। लगातार घंटों लैपटॉप और कम्प्यूटर पर काम करने के कारण आपकी आँखों पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही इससे आपकी उंगलियों में भी कई समस्याएँ हो सकती हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी ही बीमारी है, जिसका खतरा उन लोगों को होता है जो अपना ज्यादातर समय कम्प्यूटर, लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए बिताते हैं या स्मार्टफोन पर बिताते हैं। इस रोग में हाथों में दर्द और बीच की उंगली में संवेदन न होना, जैसी परेशानियाँ आती हैं। आपको बताते हैं टनल सिंड्रोम से जुड़ी जरूरी बातें। **30 प्रतिशत युवा हो रहे हैं शिकार:-** एक शोध के मुताबिक भारत में 30 प्रतिशत युवाओं में माँपेशियों और स्नायु सम्बन्धी बीमारियाँ देखी गई हैं। इस शोध में ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो लोग दिन में 7 घंटे से ज्यादा समय लैपटॉप, कम्प्यूटर या स्मार्टफोन पर गुजारते हैं। इस रोग के कारण एक उम्र के बाद व्यक्ति की कलाईयों में दर्द रहने लगता है और कई बार सामान उठाने, शौच क्रिया करने आदि में उंगलियाँ साथ नहीं देती हैं। ऐसे में ज्यादातर बार सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। **क्या हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षण:-** यह समस्या एक साथ दोनों हाथों में भी हो सकती है। इस रोग की सबसे खास बात यह है कि सबसे छोटी उंगली (कनिष्ठा) पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को हाथ में सूजन महसूस हो सकती है और हथेली से लेकर कुहनी तक दर्द भी हो सकता है। रात में या जब हाथ गर्म हो दर्द या सुन्नपन बढ़ जाता है। पीड़ित अपने हाथ में कमजोरी महसूस करने लगता है। व्यक्ति चीजों को आसानी से पकड़पाने में असमर्थ रहता है। चीजें उसके हाथ से छूटने लगती हैं। उसके लिए किसी चीज को उठा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ महिलायें हमीस में बदलाव की वजह से इस बीमारी की चपेट में आ सकती हैं। **ड्राइविंग में भी बरतें सावधानी:-** हाथों व कलाईयों पर अधिक दबाव डालने से बचना चाहिए, यदि आप लंबी दूरी तक लगातार ड्राइव करते हैं तो कोशिश करें कि स्टीयरिंग व्हील या हैंडल पर आपकी ग्रिप थोड़ी ढीली रहे ताकि कलाईयों पर ज्यादा दबाव न बने। हाथों पर दबाव डालकर नहीं सोना चाहिए, सही मुद्रा में सोना चाहिए ताकी हाथों की नसों पर दबाव न पड़े। **हाथों की एक्सरसाइज है फायदेमंद:-** कार्पल टनल के दर्द को नियमित एक्सरसाइज से भी काबू पाया जा सकता है। खासतौर पर कलाई और उंगलियों से जुड़ी एक्सरसाइज इसमें बहुत मददगार साबित होती हैं। बांहों, कलाईयों और उंगलियों को स्ट्रेच करने, कंधों और गर्दन की सामान्य एक्सरसाइज करने, कलाईयों को क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घुमाने जैसे एक्सरसाइज से इस दर्द पर काबू पाया जा सकता है। **कैसे संभव है कार्पल टनल सिंड्रोम से बचाव:-** अपने शरीर को लेकर विशेष सावधानी बरतें। उंगलियों को बीच-बीच में आराम देते रहिये। ● कम्प्यूटर पर काम करने वालों के लिए जरूरी है कि वे अपनी कमर, बाजुओं और पैरों को ऐसी स्थिति में रखें कि कलाई और उंगलियों में कम से कम दबाव पड़े। ● हाथों में थकान होने पर बैठकर गहरी साँस लेने, संगीत सुनने, ध्यान या प्रार्थना से भी लाभ मिलता है। ● इस समस्या से बचने के लिए काम के दौरान थोड़ी-थोड़ी देर में हाथों को आराम देते रहें। ● कम्प्यूटर पर काम करते वक्त की-बोर्ड कोहनी की ऊँचाई से ऊपर न रखें। ● लंबे समय तक बैठने पर कमर को सीधा रखने की कोशिश करें। ● कलाई, कमर व गर्दन का व्यायाम रोजाना करें।

फूड पॉइजनिंग

आप खाना खाने के दो-तीन घंटे बाद पेट में मरोड़ के साथ दर्द, खूनी दस्त, सिर में भयानक दर्द, आँखों के सामने धुंधला या कमजोरी महसूस करें तो यह फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। फूड पॉइजनिंग ऐसे भोजन के खाने से होती है जो बैक्टीरिया, वायरस या दूसरे रोगाणुओं अथवा तत्वों से संक्रमित हो जाए। बच्चे और बुजुर्ग फूड पॉइजनिंग के आसानी से शिकार हो जाते हैं। क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है **गंभीरता के लक्षण :** संक्रमण गंभीर होने पर साँस लेने में तकलीफ होने लगती है। रह-रहकर पेट फूलने लगता है। आँखें और त्वचा मुझाने लगती हैं। जल्दी ही ठंड के साथ बुखार गिरफ्त में ले लेता है। जोड़ों में सूजन आ जाती है तथा खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। ● **सबसे बड़ा कारण रोगाणु:-** विशेषज्ञों के मुताबिक फूड पॉइजनिंग के अधिकतर मामलों में स्टेफायलोकोकस या ई-कोलाई बैक्टीरिया का संक्रमण पाया जाता है। यह रक्त, किडनी और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है इसके अलावा सालमोनेला, स्टेफाइलोकोकाई और क्लॉसट्रिडियम बोट्युलियम जैसे रोगाणु भी खाद्य पदार्थों के संक्रमित होने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। क्लॉसट्रिडियम बोट्युलियम द्वारा उत्पन्न संक्रमण को बोट्युलियम कहते हैं। यह सबसे गंभीर फूड पॉइजनिंग माना जाता है, क्योंकि इसमें रोगाणु सीधे तंत्रिका तंत्र पर हमला करते हैं और हमें नुकसान पहुँचाते हैं। ● **अन्य कारण संक्रमण के:-** बैक्टीरिया भोजन में कई प्रकार से प्रवेश करके उसे संक्रमित करते हैं। मसलन-पशु या मानव मल के जरिये। दरअसल जब फसल की दूषित पानी द्वारा सिंचाई की जाती है तो फसल संक्रमित हो जाती है और इसके इस्तेमाल से फूड पॉइजनिंग की आशंका बनी रहती है। जब शौच के बाद हाथों को सही तरीके से नहीं धोया जाए तो भी फूड पॉइजनिंग की जबरदस्त आशंका रहती है। ● खाना बनाने के लिये उपयोग किये जाने वाले बर्तनों और दूसरी वस्तुएँ अगर गंदी होती हैं तो चाहे आप जितना महंगा और स्वास्थ्यवर्धक खाना खा रहे हों, उसके कभी भी खतरनाक होने की आशंका रहती है। अगर प्रिजर्वेटिव युक्त ढंग से भंडारण नहीं किया जाता, इसी तरह डेयरी उत्पादों को लम्बे समय तक सामान्य तापमान पर रखा जाता है तो फूड पॉइजनिंग की आशंका बनी रहती है। इसलिए ऐसी चीजों को हमेशा उचित तापमान पर स्टोर करना चाहिए। ● फूड पॉइजनिंग की ओर भी कई वजहें होती हैं जैसे फ्रोजन चीजों को उचित तापमान पर स्टोर न करना। कच्ची सब्जियों और फलों को बिना ठीक तरह से धोए फिर इस्तेमाल करना। अधपके अंडे का सेवन करना। संक्रमित और गंदे जल का सेवन। आवश्यकता से अधिक खाना। सड़े हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग आदि। ● **क्या करें:-** खाने-पीने के मामले में गौर करने वाली बात यह है कि खाना कीमती नहीं बल्कि साफ-सुथरा, शुद्ध और सुपाच्य होना चाहिए। खान-पान में साफ-सफाई और हाईजीन का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। संक्रमण के विभिन्न कारणों की रोकथाम के यथासंभव उपाय करें। फूड पॉइजनिंग को हलके में न लें और घरेलू उपचार या आराम करने से मरीज को फायदा न हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल या किसी योग्य चिकित्सक के पास ले जायें।

मस्तिष्क आघात के मरीज को कैसे पहचानें?

मस्तिष्क आघात - ब्रेन स्ट्रोक अथवा आम भाषा में दिमाग की नस फटना या ब्रेन-हैमरेज भी कह देते हैं। इस के बारे में पोस्ट डाक्टर साहब लिखते हैं। एक पार्टी चल रही थी, एक मित्र को थोड़ी ठोकर सी लगी और वह गिरते गिरते संभल गई और अपने आस पास के लोगों को उस ने यह कह कर आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है, बस नये बूट की वजह से एक ईंट से थोड़ी ठोकर लग गई थी। (आस पास के लोगों ने ऐम्बुलेंस बुलाने की पेशकश भी की)। साथ में खड़े मित्रों ने उन्हें साफ होने में उन की मदद की और एक नई प्लेट भी आ गई। ऐसा लग रहा था कि इन्ग्रिड थोड़ा अपने आप में नहीं है लेकिन वह पूरी शाम पार्टी तो एकदम एन्जॉय करती रहीं। बाद में इन्ग्रिड के पति का लोगों को फोन आया कि उसे हस्पताल में ले जाया गया लेकिन वहां पर उस ने उसी शाम को दम तोड़ दिया। दरअसल उस पार्टी के दौरान इन्ग्रिड को ब्रेन-हैमरेज हुआ था। अगर वहां पर मौजूद लोगों में से कोई इस अवस्था की पहचान कर पाता तो आज इन्ग्रिड हमारे बीच होती। ठीक है ब्रेन-हैमरेज से कुछ लोग मरते नहीं हैं। लेकिन वे सारी उम्र के लिये अपाहिज और बेबसी वाला जीवन जीने पर मजबूर तो हो ही जाते हैं। स्ट्रोक की पहचान, एक न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर स्ट्रोक का कोई मरीज उन के पास तीन घंटे के अंदर पहुँच जाए तो वह उस स्ट्रोक के प्रभाव को समाप्त (Reverse) भी कर सकते हैं। पूरी तरह से उन का मानना है कि सारी टिक बस यही है कि कैसे भी स्ट्रोक के मरीज की तुरंत पहचान हो, उसका निदान हो, और उस को तीन घंटे के अंदर डाक्टरी चिकित्सा मुहैया हो, और अक्सर यह सब ही अज्ञानता वश हो नहीं पाता। स्ट्रोक के मरीज की पहचान के लिये तीन बातें ध्यान में रखिये और इससे पहले हमेशा याद रखिये - STR. डाक्टरों के उत्तर के आधार पर एक स्ट्रोक के मरीज की पहचान करने एवं उसका बहुमूल्य जीवन बचाने में योगदान कर सकता है STR - S- (Smile) आप उस व्यक्ति को मुस्कुराने के लिये कहिए, T- (Talk) उस व्यक्ति को कोई भी सीधा सा एक वाक्य बोलने के लिये कहें जैसे कि आज मौसम बहुत अच्छा है। R- (Raise) उस व्यक्ति को दोनों बाजू ऊपर उठाने के लिये कहें। अगर उस व्यक्ति को ऊपर लिखे तीन कामों में से एक भी काम करने में दिक्कत है, तो तुरंत ऐम्बुलेंस बुला कर उसे अस्पताल शिफ्ट करें और जो आदमी साथ जा रहा है उसे इन लक्षणों के बारे में बता दें ताकि वह आगे जा कर डाक्टर से इस का खुलासा कर सके। नोट - स्ट्रोक का एक लक्षण यह भी है - 1. उस आदमी को जिहवा (जुबान) बाहर निकालने को कहें। 2. अगर जुबान सीधी बाहर नहीं आ रही और वह एक तरफ को मुड़ सी रही है तो भी यह एक स्ट्रोक का लक्षण है। एक सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर समय रहते सही उपचार मिल जाये तो मस्तिष्क आघात के खतरे को कम करते हुए मरीज की जान बचायी जा सकती है. - मो० 9219195027.

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

Harish Agarwal
Dhanwantari Karyalaya Central
Valljagarh, Aligarh (U.P.)
Mob.: 9675131212

सभी देशवासियों को दीपों के पावन पर्व
दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें

Sachin Madhukar Pawar
Krushnai Medical & General Store
Para Road at P.O. Teh. Washi
Osmanabad, Mob.: 9822271717

VEECHEM LABORATORIES

GMP Certified

ISO 9001:2009

क्या आप अपने नाम से कोई भी प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं?

अब मात्र 2000/-

लगायें और अपने नाम से अपना प्रोडक्ट बनवायें.

हम सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, कैप्सूल, सीरप

सभी प्रकार के तेल आदि उत्तम गुणवत्ता वाले लगभग

1000 प्रोडक्ट्स बनाते हैं.

60 Industrial Estate, Bhojipura, Bareilly (U.P.)

Mob:-09917414219, 09105869380

Email:- rishi.agarwal.in@gmail.com

How Would Pharma Re-construct Its Business In Post COVID Era?

Pharma Industry post covid eralt is only after the COVID effects on Pharma Industries that entire Pharmaceutical sector came together on a global level to re-vitalize its existence and functioning. The COVID-19 Pandemic has affected all types of businesses, and the Pharma industry is no exception to it. Speculating at the probable steps to revive and transform the industry, there are many strategies which can prove helpful in changing the facet of this sector. If you keep a keen watch at Indian Pharma news, it is quite evident that digitalization, collaborations, and amalgamations are changing the whole algorithm of this business. Coronavirus challenges are tricky to tackle, and the pharma industries are under the sheer pressure of vaccine development amidst the existing restrictions and Government SOP. There are other obstacles like communicating and spreading awareness against this disease in various languages. Updating the media regarding the latest developments and procuring steps to gain business momentum are few other challenges on the hold. Physical conferences are not possible in this phase, and meetings are getting virtual! Sales representatives cannot make visits to collaborate with institutes and organizations, and it is affecting the revenue of Pharma business. If you are a follower of Indian Pharma News, it is trending that Pharma needs a digital boost to regularize and frame strategies for better business prospects. Fighting the Pandemic blues is getting very tough now! Conventional business tactics would no longer work as new alternatives are

available to generate more significant and better collaborations with the partners, investors, stakeholders and other colleagues. Innovations are helping translation technology to overcome the communication problem and help in changing the outlook if Pharma business.

Contrasting Collaborations- Global leaders from all across the world, are contributing to a collective sum of £6.5bn to research COVID-19 through a virtual meeting in EU. Earlier, this type of events required months of planning, but today it was just a matter of few days. Until last year, there were invitations given to interpreters who visited such international conferences to translate the complete communication in real-time. But considering the time, travel and cost factors; demand for multilingual or interpreting platforms are at high. Organizers, as well as the participants, use to hire a qualified linguist who could not just translate the language but also the complex terminology of the pharma sector. But now, the virtual interpreting system is playing this part to provide standardization in such events or conferences. **Digitalization-** Indian Pharma News is full of evidence that digitalization is the new rescue for saving businesses of the Pharma Industries. Key aspects related to the working of the Pharmaceutical Industry are workshops, training and demonstrations. It is vital not just from the research point of view but also business development depends on this part of the working. Communication makes for a massive part of this business as Pharma Industries have HR, Finance, operations and marketing, which now needs e-learning for progression. Seminars need to replace with podcasts and webinars that facilitate digital learning on a remote basis so that industries can upskill their teams for better inputs in the firm. Working on similar projects through a virtual platform is now possible with digitalization. Even businesses can provide tutorials, training, workshops and forums to induce better online interaction that now takes the place of human interaction. Well, that's the only way Pharma Industries can make things work in their favour. Indian Pharms news also highlights that digitalization on awareness of drugs and medicines is also helping pharma partners to capture a broader market while reducing their marketing or promotional costs. **Bringing clinical change by languages-** Next strategy which Indian Pharma News highlights is the role of trials in medicine development and several vol-

unteers to take the part matter a lot. After all, the number of clinical trials can only justify if the Corona Vaccine is worth a use or mot. 650 pharma groups across the globe are making 460 distinct vaccines and undergoing trials of diverse nationals for this purpose. Spreading awareness about these clinical trials is possible through various online print and video media, which includes patient details, questionnaires, patient outcomes, consent forms and a lot more. All of this is much more vital than you can imagine and framing policies to implement this after the COVID era is going to be tricky. New wake of Indian Pharma Sector- This pandemic shook the world by storm, and everyone is trying their best to recover from its side-effects. Indian Pharma News constantly updates on latest developments in the Pharma business and the role of Pharma Industries to upgrade and retain the old stature of India's medicine business. **Final words** Post COVID era, India would come up with a full-fledged plan to get over the corona damages and more efficiently manage the business operations and functionalities. Pharma industries are trying to eliminate all constraints of physical travel and using modernization to sustain the effectiveness of Pharma Industries. Even nations all across the world are implying better translation technology so that they can avail a better place on a global platform. Pharma industries are constantly working on upgrading themselves with the latest and upcoming technology to convert all obstacles into opportunities. Although the COVID era might end the learnings soon and need for advancements it generated would stay forever with the world. If you want to know further developments by the Pharma sector to boost up business and communication in the industry, stay tuned to Indian Pharma news. And get to know the real challenges and real achievements that our country is working with!

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में भारत और इजरायल के बीच समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में कोऑपरेशन को लेकर इंडिया और इजरायल के बीच मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन करने की मंजूरी दे दी है। मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कोऑपरेशन के ये कुछ क्षेत्र शामिल हैं: 1. मेडिकल डॉक्टर्स और अन्य हेल्थ प्रोफेशनल्स को सही तरीके से आदान-प्रदान करना और ट्रेनिंग देना। 2. ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट और हेल्थ केअर फैसिलिटीज की स्थापना में मदद करना। 3. फार्मा, मेडिकल डिवाइस और कॉस्मेटिक रेगुलेशन के बारे में सही जानकारी का आदान-प्रदान करना। 4. मिटिगेशन और एडाप्टेशन के लिए टागैटेड क्लाइमेट रिस्क और पब्लिक हेल्थ कार्यों के खिलाफ, सिटीजन्स के हेल्थ और वल्लेरेबिलिटी असेसमेंट के एक्सपर्टाईज को शेयर करने की जरूरत। 5. 'Green Healthcare' (climate&resilient hospitals) के डेवलपमेंट में मदद करने के साथ-साथ क्लाइमेट-रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की फसिलिटीज के एक्सपर्टाईज को शेयर करने की जरूरत। 6. कई अलग रिलेवेंट क्षेत्र में मम्यूचुअल रिसर्च को प्रोमोट करना। 7. कोऑपरेशन के किसी अन्य क्षेत्र में मम्यूचुअली निर्णय लिया जाए। बता दें कि, दूसरे देशों के रिलेवेंट बॉडी द्वारा ऑर्गनाइज कोऑपरेशन के इश्यूज पर हर पार्टी राउंड टेबल, सेमिनार, सिम्पोजिया, वर्कशॉप्स और कॉफ्रेंस में अपने देशों के रिप्रेजेंटिव को पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित करेगी।

रफ्तार

वृद्ध सज्जन अपने मं दु गति से स्कूटर पर चले जा रहे थे. यकायक पांच बाइक सवार अति तेज गति से उनके अगल-बगल से निकल गए। वृद्ध गिरते-गिरते बचे। चलते-चलते एक बाइक सवार ने कमेंट कर दिया- "इतना धीमे चलना है तो साइकिल क्यों नहीं चलाते?" वृद्ध सज्जन कुछ नहीं बोले। वे उसी गति से स्कूटर चलाते रहे, तकरीबन, आधे घंटे बाद उन्होंने देखा कि पांचों बाइक सवार एक्सिडेंट करके रोड पर धाराशाई पड़े हैं.

- डॉ॰ नरेन्द्र नाथ लाहा, ग्वालियर (म.प्र.), मो॰ 9753698240.

MARG PAY

Payment and Reconciliation Made Easy!



The Business Backbone
Marg ERP 9+

SPECIAL DIWALI OFFER

20% OFF

on MARG ERP 9+

Valid
Till **15th Nov**

India's Most Advanced

GST Billing Pharmacy Software with Digital Payments

0%

Service
Charges

2%*

Customer
Cashback

Lucky Draw

Worth
₹25,000

- Free SEO Friendly Website Worth ₹5,000
- Free Dr. Vivek Bindra Course worth ₹15,000
- Free Gift Vouchers worth ₹25,000
- Free Digital Collection with Auto Reconciliation- MargPay

Get Instant
INDIFI Loans

Special Pharmacy Features



Inventory
Management



Rack & Expiry
Management



Customer
Behavior &
History



Reminders &
Follow Ups



Re-order
Management



SMS & Email
MIS & Analytics



Prescription
& Substitute



GST
Returns



Online
Banking



Online Purchase
Import

T&C

MARG ERP LTD.

Marg House, Plot No. 7, Wazirpur Press Area, Near D.T.C Depot, Opp. Netaji Subhash Place, Delhi - 110035 (India)

+91-9999999364 (Miss Call For Free Demo)

www.margerp.com

e-derma
A complete range of Skin Care Products

Franchisee For
SKIN SPECIALIST Products

More Than 170 Products

Feel free for Any Query

9034435000, 9034635000
edermapharma@hotmail.com
www.edermapharma.com

Marg ERP And Paytm Partners To Resolve MSMEs Payment Issues Digitally



One of India's biggest enterprise solution provider; Marg ERP with over 50% market share in Pharma and FMCG sector nationally has come together with Paytm to facilitate seamless transactions for MSMEs. Under this joint venture, the duo empowers MSMEs using a new integrated payment solution called Marg Pay developed by MARG ERP. This technological advancement will reconcile payments efficiently in a cost effective manner by enabling MSMEs to keep a track of all their receipts and payments made through multiple payment methods like UPI, Net Banking, Credit Card, Debit Card, Wallets & NBFC. According to Krishnam Raju, CEO Marg ERP Ltd.; a CMMI Level 3 certified company with 850+ sales & support system countrywide which processes 20 billion+ invoices worth 100 billion dollar per year, says that SME and MSMEs are facing huge problem of payment reconciliation with advent of multiple internet technology platforms and various payment options like Net Banking, UPI, Wallets, cards etc. The small businesses finds it a challenging task to deal with multiple service providers, interfaces and expensive solutions which are beyond their ability to understand and are also not affordable for them. It adds complexity and confusion both at the time of collecting and making payments in their business. To make the Ordering process easier, Marg ERP has developed 'My Shop QRID' in its software for the distributors who operate in the wholesale markets and for the shopkeeper whose shops are thronged by the customers themselves. They have to simply list & upload products, schemes, offers in QR code and print the QR code from the software and need to paste it outside the shop/counter where customers can directly scan & place orders. With a goal to support the local SMEs & SMBs, Marg ERP Ltd. has decided to provide every Marg user to set up their online store, create digital catalogues & reach more customers with free personalized SEO friendly website worth Rs. 5000. Marg has also provided a very beneficial feature through which users can send Invoices, Outstandings, Stock and Sale Analysis etc. & various reports to customers directly on WhatsApp through Software. Along with it, through eRetail Web Application, the customers can directly place online orders to distributors & check status of all orders, View nearby distributors, schemes inside Marg ERP Software. He further adds, "MARG PAY is an easy to use platform with user friendly interface. It will also be very easy for merchants to connect it with their billing and accounting system with minimum effort. Furthermore, this partnership of two digital giants of the country will also extend to Paytm Payments Bank Limited powering Marg Pay's nodal bank account." Saloni Malhotra, Vice President - Paytm said, "It has been our constant endeavour to empower MSMEs across the country with the best payment acceptance and reconciliation solutions to help them join the digital ecosystem. We want to enable them with technology solutions that help them maintain their records and also aid in expanding their businesses. With this partnership, we aim to reach a step closer to Atmanirbhar Bharat, where MSMEs have all the digital means to become self-reliant." Paytm Payment Gateway is a leader in India with over 50% market share in processing transactions through Wallet, UPI, cards and net-banking. It offers several innovative services, such as Payouts & Recurring payments, OTP less card payments, instant refunds, and pre-authorization flow that addresses the needs of both B2B and B2C companies. Paytm Payments Gateway allows merchants to enjoy real-time bank settlement and is based on anti-fraud technology to ensure secure payments. It also provides a strong dashboard to see the payments received and bank settlements. - Marg Fintech Pvt. Ltd, Delhi, Ph.: 011-30969696.

Professionally Managed
Pharma Company

Looking For Franchise & Pcd
State/ District Wise

All Over India We Offer Quality medicine
With Full Marketing Support

A COMPLETE RANGE OF:

TABLETS INJECTIONS ORAL LIQUIDS OINTMENTS EAR/EYE DROPS
CAPSULES DRY SYRUP IV FLUIDS MOUTH WASH PROTEIN POWDER

We also have OTC range for distributor district wise

Complete Ortho, Cardio-Diabetic, Gynae, Paed., General, Gastro, Derma Range Available

3RD PARTY ALSO AVAILABLE

R.O.-SCF-394, 2nd Floor, Motor Market, Manimajra (U.T.) Chandigarh 160101
www.dhkriticalcare.com, Email : dhbiotech2017@gmail.com
Ph. No. 017224731211, Toll Free No. 18008893916
Contact Miss Priyanka for PCD & 3rd Party Manufacturing 6283287838.

जगन्नाथ शिन्दे बने पुनः MSCDA अध्यक्ष



एक बार फिर देश भर में कैमिस्ट हृदय सम्राट के नाम से विख्यात श्री जगन्नाथ शिन्दे जी (अप्पा जी) निर्विरोध MSCDA के अध्यक्ष चुन लिये गये हैं. उनके पुनः यह पद संभालने पर महाराष्ट्र राज्य के कैमिस्टों में उत्साह एवं खुशी का माहौल है, कल्याण स्थित अप्पाजी के निवास पर उन्हें बधाई देने वालों का ताता लगा रहा. मेडिकल दर्पण मीडिया की तरफ से शिन्दे जी को इस उम्मीद के साथ ढेर सारी शुभकामनायें कि वो अपने इस कार्यकाल में कैमिस्ट हितों का सम्पूर्ण ख्याल रखते हुए आनलाईन दवा विक्री जैसी कुरीति से देश भर के कैमिस्टों को मुक्ति दिलायेंगे. - अभय सिंघल, मो 9319980483.

दवाइयों Sub Standard पायी गयीं विभिन्न सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार निम्न कम्पनियों की दवाइयों Sub Standard पायी गयी हैं, यदि कम्पनी को यह खबर भ्रामक लगती है, प्रमाण सहित अपने विचार भेज सकती है, हमें अगले अंक में खेद प्रकट करने में कोई समस्या नहीं होगी.

Ultra-Chiron Pharmaceuticals, Mohali (Punjab) • Balu Surgicals, Tamil Nadu • Dr. Edwin Lab (Punjab) • Ananya Herbal, Sonapat (Haryana) • Swiss Garnier Biotech, Una (H.P.) • Hindustan Antibiotics, Pune • Akums Drugs & Pharmaceuticals, Haridwar (U.P.) • Rachil Pharma, Kangra (H.P.) • Unicure India, Gautam Budh Nagar (U.P.) • Cian Healthcare, Haridwar (U.K.) • Yashwin Healthcare, Sonipat (H.R.) • Zim Laboratories, Nagpur (M.H.) • Astam Healthcare, Solan (H.P.) • Wings Biotech, Baddi (H.P.) • Medipol Pharmaceutical, Solan (H.P.) • Intas Pharmaceuticals, Sikkim • Ortin Laboratories, Medak (Andhra Pradesh) • Rednex Pharmaceuticals, Haridwar (U.P.) • Morepen Laboratories, Solan (H.P.) • Himalaya, Dehradun (U.K.) • Stallion Laboratories, Ahmedabad (Gujarat) • Torrent Pharmaceuticals, Nani Daman • Premier Enterprises, Chatrapatti (Tamil Nadu) • Bayberry Pharmaceuticals, Solan (H.P.) • Anecha Pharma (U.K.) • Modern Laboratories, Indore (M.P.) • Unital Formulations, Solan (H.P.) • SBS Biotech, Sirmour (H.P.) • Nootan Pharmaceuticals, Solan (H.P.) • HLL Lifecare, Indore (M.P.) • Ravenbhel Healthcare, Jammu • Abicee Pharmaceuticals, Bhubaneswar • Mariya Healthcare, Kerala • Adroit Pharmaceuticals, Nagpur • Deep Pharma, Ahmedabad • Brilliant Life Sciences, Ahmedabad (Gujarat) • Zest Pharma, Indore (M.P.) • Unicure India, Gautam Budh Nagar (U.P.) • Vivek Pharmachem, Amer (Jaipur) • SBS Biotech, Sirmour (H.P.) • Orison Pharma, Amb (H.P.) • Kwality Pharmaceuticals, Amritsar (Punjab) • Nootan Pharmaceuticals, Solan (H.P.) • Bonn Schtering Bio Sciences, Puducherry • Wilcure Remedies, Amritsar • Laborate Pharmaceuticals, (H.P.) • Tanpal Pharmaceuticals, Punjab • Paschim Banga Pharmaceuticals, (W.B.) • Neutec Healthcare, Delhi • Globin Pharmaceuticals, Roorkee (U.K.) • Voda Chemicals, Delhi • Hi Tech International Gurgaon • JR & Co., DLF New Delhi • Digital Vision, Sirmour (H.P.) • Theramax Laboratories, Ambala (Punjab) • Swisskem Healthcare, Una (H.P.) • ANG Lifesciences, Solan (H.P.) • Pushkar Pharma (H.P.) • Haustus Biotech, Una (H.P.) • FDC Limited, Goa • Modern Laboratories, Indore (M.P.) • Cipla Ltd. Sikkim • Bhavani Pharmaceuticals • Elegant Drugs, Dharwad (Karnataka) • Shashi Pharma, Gandhinagar (Guj.) • Synokem Pharmaceuticals, Haridwar (U.K.) • Progression Industries, Solan (H.P.) • Mercury Laboratories, Vadodara • Bioconic Remedies, Sirmour (H.P.) • Omega Biotech, Roorkee (U.K.) • CMG Biotech (H.P.) • Cian Healthcare, Haridwar (U.K.) • Haseeb Pharmaceuticals, Nagpur • ION Healthcare, Solan (H.P.) • Biomax Biotechnics, Barwala (Haryana) • Gracure Pharmaceuticals, Solan (H.P.) • M Sea Pharmaceuticals, Sirmour (H.P.) • Tanpal Pharmaceuticals, Nabha • Juggat Pharma, Bengaluru • Bengal Chemicals & Pharmaceuticals • Cotec Healthcare, Dehradun (U.K.) • Danish Healthcare, Ujjain • Elvia Care, Solan (H.P.) • Ramson Remedies, Mumbai • D.J. Laboratories s, Pithampur • Lesanto Laboratories, Palghar (M.H.)

जगन्नाथ शिन्दे जी का भव्य स्वागत एक समारोह में नासिक जिला कैमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से श्री जगन्नाथ शिन्दे जी का पुनः MSCDA निर्विरोध अध्यक्ष बनने पर भव्य स्वागत किया गया. समारोह में नासिक कैमिस्ट एसोसिएशन की ओर से श्री जगदीश भोंसले, रतनाकर वाणी और योगेश बागरेचा ने मालापण कर शिन्दे जी का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी. - जगदीश भोंसले, मो 9370266007.

InMed
THERAPEUTICS INDIA
(AN ISO 9001:2008 CERTIFIED CO.)

a step towards complete
General Healthcare
Diabetic & Cardiac Care

More than 180 Products
Latest DCGI Molecules

We offer a widest range of exclusive Diabetic & Cardiac Care alongwith general range including Tablets, Capsules, Syrup, Injection We offer Promotional Inputs, Samples, Visualaid, Gift, MR bag.

Trade enquiries welcome
Financially sound parties may contact for monopoly basis Franchises/PCD distributorship on

InMed
THERAPEUTICS INDIA
(AN ISO 9001:2008 CERTIFIED CO.)

Ground Floor, 286, Industrial Area, Phase-1 Panchkula (Haryana) Pincod - 134109
Mob. : 9216295095, 9041045095
Email : inmedindia@gmail.com, sales@inmedpharma.in
Website : www.inmedpharma.in

जागरूकता पैदा करें

मैनपुरी:- कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में पाजों के गोल्डन कार्ड बनाने की प्रगति जिले में ठीक नहीं मिली, परिवार नियोजन की स्थिति ठीक नहीं होने पर जिलाधिकारी महेन्द्र बहादुर सिंह ने नाराजगी दिखाई। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान डीएम ने जिले के विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पीएम, सीएम के प्राथमिकता वाले प्रमुख आवश्यक कार्यों को पारदर्शिता के साथ अति शीघ्र पूर्ण करें. उन्होंने कहा है कि तीन-तीन विकास खण्डों में रोस्टर बना कर प्रत्येक परिवार को कैम्प लगाकर पात्र लोगों के गोल्डन कार्ड बनाये जायें. अभी तक महिलाओं, पुरुषों की नसबंदी प्रगति शून्य होने पर नाराजगी व्यक्त कर, कहा है कि 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को कैम्प लगाकर परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता पैदा कर संतुलित परिवार के लाभों को बताएं. जिलाधिकारी ने कहा है कि सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में सभी मेडीसिन उपलब्ध रहे। 102, 108 एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण, दवाएं उपलब्ध रहें उक्त निर्देश डी. सी. एन. आर. एल. एम. को दिए हैं. समीक्षा में डीएम ने पशु चिकित्साधिकारी से कहा है पशुओं की बिना इयर टैगिंग के खरीद फरोखत ना की जायें, खण्ड विकास अधिकारी, प्रधानों से सहयोग लेकर पशुओं का बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण पर ध्यान देने के सख्त निर्देश दिए हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री के समीक्षा कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी बी राम, मुख्यविकास अधिकारी CDO श्रीमती ईशा प्रिया, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ए. के. पांडेय, जिला विकास अधिकारी प्रवीण कुमार राय, जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी उबेदुलहमान, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी विजय प्रताप सिंह व अन्य विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे. - मनोज कुमार वर्मा, मो 9411851614.

वर्गीकरण

स्कूल के प्रिंसिपल को खासा आश्चर्य हुआ जब एक बच्चे के पिता ने आकर कहा- "मेरे लड़के का टी.सी.काट दीजिए। उसे यहाँ के माहौल में रखा नहीं जा सकता। हम शिक्षित प्रतिष्ठित लोग हैं। यह कैसे संभव है कि हमारे घर के नौकर का लड़का भी उसी क्लास में पढ़े जिसमें मेरा बेटा पढ़ रहा हो?" प्रिंसिपल सोच में पड़ गए "क्या ये सज्जन शिक्षित और प्रतिष्ठित कहलाने लायक है? - डॉ. नरेन्द्र नाथ लाहा, ग्वालियर (म.प्र.), मो 9753698240.

+ PHARMA VETERINARY +

TABLETS/CAPSULES/BOLUS (Beta/Non-Beta)
LIQUID/DRY ORALS
ORAL POWDERS
OINTMENTS/CREAMS/SOLUTIONS/
LOTIONS/DUSTING POWDERS
MOUTHWASH/SHAMPOO/PROTEIN POWDER
INJECTABLES

ECTOPARASITICIDALS (FLUMETHRIN, DELTAMETHRIN, CYPERMETHRIN, AMITRAZ Etc.)

AYURVEDIC PREPARATIONS

Trade Enquiries Please Contact : FOR FRANCHISEE/PCD 099960-19744, 078762-20222, 094160-32336, 09896063336
FOR THIRD PARTY : 099960-19744, 89300-63336, 78762-20222.

GRAMPUS LABORATORIES
Mfg. Unit: Johron, Near Industrial Area, Kala Amb. (H.P.)
Email-id: sales.grampus@gmail.com Web Site: www.grampuslaboratories.com